



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 06.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.06.2022 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 665/14 धारा 323/336/427/504/506 भादवि में 03 नफर वारंटी अभियुक्तगण नन्द किशोर, काशीराम व पंचम को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. नन्द किशोर पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 ग्राम मल्लबेहड थाना धौरहरा जनपद खीरी
2. काशीराम पुत्र मनोहर नि0 ग्राम मल्लबेहड थाना धौरहरा जनपद खीरी
3. पंचम पुत्र बचान नि0 ग्राम मल्लबेहड थाना धौरहरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेश कुमार शंखधार
2. उ0नि0 श्री राजन कुमार
3. का0 शिवम कुमार
4. का0 चन्द्रकान्त चहल
5. का0 मोहित कुमार

थाना मितौली पुलिस द्वारा, वारण्टी अभियुक्त नीरज शर्मा पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.06.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त नीरज शर्मा पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर माननीय न्या० भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

नीरज शर्मा पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम दरी थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० महताब सिंह
2. हे०का० प्रेमनरायन राजपूत

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त सूरज पुत्र रामसिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.06.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज पुत्र रामसिंह को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर सोनौवा हाल्ट तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 262/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सूरज पुत्र रामसिंह नि0 ग्राम ऐगवाँ थाना शाहाबाद जनपद हरदोई

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राहुल सिंह
2. हे0का0 जय प्रकाश पटेल
3. का0 प्रमोद कुमार

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त अब्दुल पुत्र गुलजार खाँ को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 05.06.2022 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त अब्दुल पुत्र गुलजार खाँ के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 389/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अब्दुल पुत्र गुलजार खाँ निवासी रसुलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 05.06.2022 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 1250/- रूपये बरामद हुए। जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 05.06.2022 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 5270/- रूपये बरामद हुए। जिसके संबंध में थाना धौरहरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 70 लीटर अवैध शराब व 01 शराब भट्टी बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **70 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **04 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **04 अभियोग** पंजीकृत किए गए।